

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट सराहनीय कार्य दिनांक 31.08.21

थाना रोजा पुलिस ने किया सट्टा गिरोह का खुलासा,

सट्टा लगाते हुए सट्टा किंग बेदी के मुनीम सहित चार अभियुक्त गिरफ्तार, 25040/- रू0 नगद, 12 सट्टा पर्ची, 03 मोबाइल, पैन व रजिस्टर बरामद ।

श्री एस.आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार श्री संजय कुमार,अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं श्री अरविन्द कुमार क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन मे सट्टा कारोबार की रोकथाम व संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान मे थाना रोजा पुलिस को बडी सफलता मिली ।

दिनांक 30.08.21 की शाम को थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर राशिद अली उर्फ कमल पुत्र मो0 शमी निवासी मो0 आदर्श नगर थाना रोजा जिला शाहजहाँपुर के घर पर अनुमति प्राप्त करने के उपरांत छापेमारी करके अवैध सट्टा का कारोबार कर रहे सट्टा माफिया बेदी के मुनीम सोबित उर्फ अंशू व उसके गिरोह के अन्य तीन व्यक्तियों क्रमशः 1. राशिद अली उर्फ कमल 2.फिरासत 3. अली हसन उर्फ हीरो को 12 सट्टे की पर्ची, चार पैन व रजिस्टर, तीन मोबाइल व 25040/- रू0 की नगदी के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के विरुद्ध सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण :

1. राशिद अली उर्फ कमल पुत्र मो0 शमी निवासी आदर्श नगर कालोनी गली नं0 21 थाना रोजा शाह0
2. फिरासत पुत्र शौकत निवासी बल्लिया थाना रोजा शाह0
3. अली हसन उर्फ हीरो पुत्र अब्दुल गफ्फूर निवासी आदर्श नगर कालोनी गली नं0 21 थाना रोजा शाहजहाँपुर
4. सोबित उर्फ अंशू पुत्र बसंत कुमार निवासी छोटा चौक जामा मस्जिद थाना कोतवाली शाहजहाँपुरा

बरामदगी :

- | | |
|------------------|------------------|
| 1-25040/- रू नगद | 2-12 सट्टा पर्ची |
| 3-03 मोबाइल | 4- चार पैन |
| 5-रजिस्टर | |

गिरफ्तारी पूछताछ – पूछताछ से ज्ञात हुआ कि जनपद शाहजहाँपुर मे पुलिस द्वारा अवैध सट्टा जुआं के विरुद्ध की गयी प्रभावी कार्यवाही से सट्टा माफिया बेदी ने जनपद मे अपना कारोबार बन्द कर दिया था । किन्तु विगत कुछ माह से बेदी ने चोरी छुपे शहर के आसपास अपना नया नेटवर्क खड़ा करना शुरु किया । बेदी द्वारा चलाये जा रहे नेटवर्क मे स्थानीय स्तर पर सट्टा लगाया जाता है । स्थानीय सटोरिये पैसा इकट्ठा करके बेदी के मुनीम सोबित उर्फ अंशू को देते है तथा सोबित उर्फ अंशू उक्त पैसे को मुसर्फ नाम के एजेन्ट को देता है और फिरासत पुनः उक्त पैसों को बेदी के गुर्गे विमल को देता है । इस प्रकार प्रतिदिन का कलेक्शन बेदी बेहद शातिराना ढंग से दूर बैठकर करवाता है। फरार आरोपीगण मुशर्रफ , विमल तथा बेदी की तलाश की जा रही है तथा शहर मे इनके अन्य नेटवर्क की जानकारी कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1.थाना प्रभारी जयशंकर सिंह | 2. व0उ0नि0 सुदीश सिंह सिरौही | 3. उ0नि0 किरनपाल सिंह |
| 4. हे0का0 143 विजय सिंह | 5. का0 1402 मोहसिन उस्मानी | 6. का0 2187 मोहित |